

## Expressway Authority of Thailand

Request Form

	Form No.3654				
Request form no. [	/				
Chaalmaint					

Troquest Form		Checkpoint			
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		Exat Call Center 1543 (24 hrs.)			
	Easy Pass Fast Servic	e. phone 0-2558-		11 (9.30 AM - 3.30 PM)	
Chaloem Maha Nakhon Chalor		hli-Suksawat	·	n Ratthaya	
			_		
	ha Withi U One-Sto	op Service			
For Customer					
Name	(Owner/Agent)		Door It le	a alv ta	
Identification card no./ Certificate no.	The state of the s		Result b		
	<del>╶</del> ┙ <del>╏╸┇╸┇</del> ┑ <sub>╴</sub> ┎╾┱╸┇		— l <u> </u>		
Easy Pass no. 3 0 8	5			e	
Or Smart Card no.				il	
Wishing	Mobile .		Pick t	up checkpoint	
1. Change name / address (บข.)	5. Change new Easy Pass (chec	ck piont)	8. Change new		
Document follows: Oa copy of name /addressny change, Or	{.	new card		d, Bent card \ pay for new \ \ \ \ \ card 100 baht	
Oa copy of the certificate for company title change	ge   Section 5	ing to current price	O Lost card	_	
the new tax certificate(within the month tax is possible) must attach the former tax certificate	<u> </u>	the new card)	OThe card has problem (With the new card)  ☐ Changed the new card		
2. Change license plate (11/1).)	Changed the new card  The new Easy pass no		The new Smart		
from to	6. Seize of card			at payment/not correct(บบ.)	
O a copy of new license plate	Document follows:			ont page of bank book	
☐ Transfer the ownership by changing ownership	O1.Police report  O2.a copy of ID card/a copy of	of certificate	10. Topup is n	ot compatible (บบ.)	
Document follows :	money return ,with a copy of			Check point	
O a copy of ID card transfer person	7 For the store department		11. To inspect	Pass O original Smart Card	
O a copy of ID card receiver Or	Document follows :		Result		
O a copy of the certificate for company	O1.a copy of ID card/a copy of		12. Other		
	<ul><li>O 2.a copy of the owner's bank</li><li>O 3.the original card Easy Pass</li></ul>				
4. To print the master of receipt (บข.)			ect the information		
Cannot print the receipt	SignExpressway user			9 2 = BECL	
O1.attach the original tax certificate_copies	(	· ·			
Result		(			
		(			
or the store department สำหรับ	บข./บบ./สล. For autho	prities		For authorities	
epartment		The operation			
lumber in the index					
Date/		O Case f		Date//	
To ห.บข. / ห.บบ. /ห.สล.		O Case r	ot finish		
For taking action Sign					
Date//			Sign	Receiver	
For authorn the user Date / /	prities		For authorities		
O Telephone	Save the numbers in the inde	ex Date_	_//		
O E-mail					
O To pick up at	Sign		Receiver		
o return the case to Date// Note					
Receiver	Date / /			Date//	